



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 11—अक्टूबर 17, 2003 (आश्विन 19, 1925)
No. 41] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 11—OCTOBER 17, 2003 (ASVINA 19, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

PART III—SECTION 1

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of
the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110069, दिनांक 02 सितम्बर 2003

सं. पी. 2819/प्रशा.3--दिल्ली ट्रांसको लि. में सहायक प्रबंधक (ओ. एंड एम.) के पद से अपने प्रत्यावर्तन के परिणामस्वरूप श्रीमती एम. सचदेवा, अनुभाग अधिकारी ने 01 सितम्बर, 2003 के पूर्वाह्न से संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में पुनः अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

एस. आनन्दन
अवर सचिव (प्रशा.)

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 18 सितम्बर 2003

सं. डीपी/एडी.5/2003/3806/3/36/2003+प्रशा.5--राष्ट्रपति ने श्री राजीव सिंह, भा.पु. सेवा (एमटी : 1993) को 29 अगस्त, 2003 पूर्वाह्न से 28.08.2007 तक चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश

तक, जो भी पहले हो, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना में पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

2. श्री एस. के. खन्ने बनाम भारत सरकार, सीडब्ल्यूपी सं. 3755/2001 में माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के दिनांक 30.07.2002 के अंतरिम आदेश को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक, के.अ.ब्यूरो के रूप में श्री राजीव सिंह, भा.पु. सेवा की नियुक्ति श्री नवीन गौयल एवं अन्य बनाम भारत सरकार द्वारा कैट, प्रधान बैंक, दिल्ली में दाखिल किए गए ओए सं. 773/2001 के अगले आदेशों के अधधीन है।

एस. डी. बैजल
प्रशासन अधिकारी (स्थापना)

दिनांक 19 सितम्बर 2003

सं. डीपी/एडी.5/2003/3768/3/15/96-प्रशा.5--राष्ट्रपति ने श्री अमरीक सिंह चीमा, लोक अभियोजक, के.अ.ब्यूरो को 21.08.2003

पूर्वाह्न से अगले आदेश तक के.अ.ब्यूरो में वरिष्ठ लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया है।

एस. डी. बैजल
प्रशासन अधिकारी (स्था.)

गृह मंत्रालय
(पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 25 सितम्बर 2003

सं. 18/25/98-प्रशा.-II (खंड)--श्री वी. बी. शर्मा, निरीक्षक (कार्य.) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, नई दिल्ली की केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल, कोलकाता में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि दिनांक 15.9.2003 से 14.9.2004 तक आगामी एक वर्ष के लिए (अर्थात् चौथे वर्ष के लिए) अथवा नए पदधारी द्वारा पदभार संभालने तक इनमें से जो भी पहले हो, विद्यमान नियमन एवं शर्तों के अनुसार बढ़ाई जाती है। यह गृह मंत्रालय के दिनांक 4.8.2003 के डायरी सं. 1194/पी.एम.-II/03 के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

अशोक कुमार सूद
सहायक निदेशक (प्रशा.)

सं. 3/7/2003-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री सर्वजीत सिंह, भा. पु.से. (पंजाब) को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, नई दिल्ली में दिनांक सितम्बर 24, 2003 पूर्वाह्न से वेतनमान रु. 26,000/- (नियत) में, अगले आदेशों तक प्रतिनियुक्ति आधार पर महानिदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

अशोक कुमार सूद
सहायक निदेशक (प्रशा.)

दिनांक 26 सितम्बर 2003

सं. 18/25/98-प्रशा.-II (खंड)--श्री एम. के. नायर, ए.सी.आई. ओ.-I(जी) आसूचना ब्यूरो, नई दिल्ली की केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल, कोलकाता में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि दिनांक 16.6.2003 से 15.6.2004 तक आगामी एक वर्ष के लिए (अर्थात् चौथे वर्ष के लिए) अथवा नए पदधारी द्वारा पदभार संभालने तक इनमें से जो भी पहले हो, विद्यमान नियमन एवं शर्तों के अनुसार बढ़ाई जाती है। यह गृह मंत्रालय के दिनांक 18.8.2003 के डायरी सं. 1267/पी.एम.-II/03 के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

अशोक कुमार सूद
सहायक निदेशक (प्रशा.)

(महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 23 सितम्बर 2003

सं. ओ. दौ. 3635/03-सी.आर.सी.-एम.ओ.--राष्ट्रपति जी, डॉ. राजेश कुमार सिंह को अस्थाई रूप से आगामी आदेश जारी होने तक के.रि.पु. बल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 08.09.2003 (पूर्वाह्न) से सहर्ष नियुक्त करते हैं। तदनुसार उन्हें 72 बदलियन, के.रि.पु. बल में तैनात किया जाता है।

जे. एन. शर्मा
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

महानिदेशालय, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-03, दिनांक 26 सितम्बर 2003

सं. ई-32015(4)/2/2001/कार्मिक-1/31--राष्ट्रपति, निम्नलिखित सीधे भर्ती अधिकारियों (समूह 'क') को सिविल सेवा परीक्षा-2000 के परिणामों के आधार पर उनके नामों के सामने दी गई तारीख से 8,000-13,500 रुपये के वेतनमान में, के.ओ.सुब में सहायक कमांडेन्ट/कार्य के रैंक में नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में बुनियादी कोर्स के लिए रिपोर्ट करने की तारीख	राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी के.ओ.सुब हैदराबाद में कार्यभार संभालने की तारीख	तैनाती का स्थान
----------	----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------

01. सुश्री तपस्या आंबराय 02.09.2002 (पूर्वा.) 22.12.2002 (पूर्वा.) बीसीसीएल धनबाद
02. सुश्री शिप्रा श्रीवास्तव 02.09.2002 (पूर्वा.) 23.12.2002 (पूर्वा.) इस्को बर्नपुर

२०।अपठनीय
महानिदेशक/के.ओ.सुब

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
चलार्थ पत्र मुद्रणालय

नासिक रोड, दिनांक 23 सितम्बर 2003

क्रमांक: 05/एस-ईएससी-1-10--चलार्थ पत्र मुद्रणालय के निम्नलिखित निरीक्षक नियंत्रणों को तदर्थ आधार पर रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनश्रेणी में उप नियंत्रण अधिकारी (वर्ग 'ख' राजपत्रित) के पद पर चलार्थ पत्र मुद्रणालय में उनके नाम के आगे दर्शाये दिनांक से छः माह की अवधि तक अथवा यह पद

नियमित रूप से भरे जाने तक इनमें से जो भी पहले हो, पदोन्नत किया जाता है :--

क्र. सं.	नाम	दिनांक से	दिनांक तक
1.	श्री एस. एन. गांगुर्डे (अ.जा.)	11.09.2003	10.03.2004
2.	श्री एस. आर. मुंगड	15.09.2003	14.03.2004

2. उक्त तदर्थ पदोन्नति पदोन्नत कर्मचारी को स्थाई नियुक्ति के लिए दावा अर्जित नहीं कराती और उनके द्वारा की गई तदर्थ सेवा उस श्रेणी में वरिष्ठता पदोन्नति की पात्रता आदि के लिए गिनी नहीं जाएगी।

अ. ना. इंगले
महाप्रबंधक

आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय
भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
प्रधान निदेशक लेखा-परीक्षा

नई दिल्ली-110002, दिनांक 24 सितम्बर 2003

सं. ए.एम.जी.-1/प्र.एक/2(1)/खण्डXIII/95-2003/भाग-II/778--प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय, नई दिल्ली, निम्नलिखित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों को लेखापरीक्षा अधिकारी (ग्रुप 'ख' राजपत्रित) के रूप में रुपये 7,500-250-12,000 के वेतनमान में उनके नाम के आगे दर्शायी गई तिथि से पदोन्नति होने के आदेश देते हैं :--

क्रम सं.	नाम	पदोन्नति की तिथि
	सर्वश्री	
1.	विपिन वासन	19.2.2003
2.	भूषण कुमार जुनेजा	20.2.2003
3.	हरीश खुराना	20.2.2003
4.	एम. डी. अदिनारायण	16.6.2003
5.	एम. प्रानथामन	27.6.2003
6.	श्रीमती स्नेहलता विज	04.8.2003

टी. के. डोगरा
उपनिदेशक (प्रशासन)

श्रम मंत्रालय
(श्रम ब्यूरो)

शिमला-171004, दिनांक 30 सितम्बर 2003

सं. 5/1/2003-सी.पी.आई.--अगस्त, 2003 में औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1982 = 100) 2 अंक घट कर 499 (चार सौ निन्यानबे) अंक रहा।

आई. एस. नेगी
उप निदेशक

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

नई दिल्ली-110011, दिनांक 15 सितम्बर 2003

सं. 10/7/99-स्मारक--प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष नियम, 1959 के नियम 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, के. पी. पूनाचा, निदेशक (स्मारक) एतद्वारा यह निदेश देता हूँ कि शाहजहां के वार्षिक 'उर्स' के अवसर पर ताजमहल में दिनांक 23.09.2003 से 25.09.2003 तक पर्यटकों से कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा।

के. पी. पूनाचा
निदेशक (स्मारक)
कृते महानिदेशक

परमाणु ऊर्जा विभाग
(परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र)

कोलकाता-700064, दिनांक 23 सितम्बर 2003

सं. वीईसीसी/पदोन्नति/2003/4030--राष्ट्रपति, प्रसन्ता पूर्वक परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, कोलकाता के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों को इसी केन्द्र पर (रु. 14,300-400-18,300/-) के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी (एफ) के पद पर स्थानापन्न रूप से काम करने के लिए 1 अगस्त, 2003 के पूर्वाह्न से अगले आदेश निकलने तक नियुक्ति प्रदान करते हैं :--

क्र.सं.	नाम	वर्तमान पद	वेतनमान
	सर्वश्री		
1.	जी.सी. चांकी	वै. अधिकारी (ई)	रु. 12,000-375-16,500/-
2.	आशुतोष मैती	वै. अधिकारी (ई)	रु. 12,000-375-16,500/-
3.	आर. सी. सेनापति	वै. अधिकारी (ई)	रु. 12,000-375-16,500/-
4.	अरूप बांधेपाध्याय	वै. अधिकारी (ई)	रु. 12,000-375-16,500/-
5.	मेकत पाल	वै. अधिकारी (ई)	रु. 12,000-375-16,500/-
6.	तापस सामंत	वै. अधिकारी (ई)	रु. 12,000-375-16,500/-

एन. श्रीनिवास राव
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड

नवी मुंबई-400705, दिनांक 26 सितम्बर 2003

सं. ब्रिज/9/17/फरवरी/2003/एस-491--महामहिम राष्ट्रपति जी, परमाणु ऊर्जा विभाग के विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के ग्रेड 'डी' के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/अभियंताओं को दिनांक 1 फरवरी, 2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इसी एकक में रुपए 12,000-375-16,500 के वेतनमान में वैज्ञानिक

अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'ई', के रूप में स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम
1.	श्री पी. ए. रामसुब्रमणियन
2.	डॉ. (श्रीमती) एस. एच. जोशी

ओ. भारतन
प्रशासन अधिकारी-III

सं. ब्रिट/9/17/फरवरी/2003/एस-492--महामहिम राष्ट्रपति जी, परमाणु ऊर्जा विभाग के विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के ग्रेड 'सी' के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/अभियंताओं को दिनांक 1 फरवरी, 2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इसी एकक में रुपए 10,000-325-15,200 के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'डी' के रूप में स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम
1.	श्रीमती चंद्रा अर्जुन
2.	श्री एम. एन. कुंभारे
3.	डॉ. (श्रीमती) आर. चंद्रिका
4.	श्रीमती टी. के. करीर
5.	श्री ए. एन. थमके
6.	श्री जेकब सेबेस्टियन

ओ. भारतन
प्रशासन अधिकारी-III

सं. ब्रिट/9/17/फरवरी/2003/एस-493--मुख्य कार्यकारी, ब्रिट, परमाणु ऊर्जा विभाग के विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के वैज्ञानिक सहायक 'सी' श्री ए. एस. गेंगजे को दिनांक 1 फरवरी, 2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इसी एकक में रुपए 7,450-225-11,500 के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'एसबी' के रूप में स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

ओ. भारतन
प्रशासन अधिकारी-III

सं. ब्रिट/टी/115/एस-502--विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी, रु. 7450-225-11500 के वेतनमान में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत श्रीमती के.पी. सतिदेवी को ब्रिट में

दिनांक 22-6-2003 (पूर्वाह्न) से 15-8-2003 (अपराह्न) तक रु. 7,500-225-12,000/- के वेतनमान में लेखा अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

ओ. भारतन
प्रशासन अधिकारी-III

(क्रय और भंडार निदेशालय)

मुंबई-400094, दिनांक 17 सितम्बर 2003

सं. क्रभनि/10015/भर्ती/ए-4372--परमाणु ऊर्जा विभाग, क्रय और भंडार निदेशालय के निदेशक ने भंडारी श्री एम.आर. सरकार को इसी निदेशालय में दिनांक 19.05.2003 (पूर्वाह्न) से 20-06-2003 (अपराह्न) तक रु. 6500-200-10580/- के वेतनमान में सहायक भंडार अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है।

आर. सुंदरराजन
प्रशासनिक अधिकारी-III

(नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र)

हैदराबाद-500062, दिनांक 18 सितम्बर 2003

सं. नाईस/प्रशा./पेंशन/का.कू-0057/1330--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री बी. गोबालन, वैज्ञानिक अधिकारी/एच. (वेतनमान रु. 18400-500-22400) ने दिनांक 31.08.2003 (अमराह्न) से अपने पद का कार्यभार त्याग दिया है।

जी. कोटेश्वर राव
प्रशासनिक अधिकारी

इन्दिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र

कल्याणकम-603102, दिनांक 17 सितम्बर 2003

सं. इगांपअक/ए/11013/1/2003-आर/416--राष्ट्रपति, निम्नलिखित वर्ग "ए" वैज्ञानिक अधिकारियों को इस केन्द्र में 1 अक्टूबर, 2000 से स्थायी क्षमता में नियुक्त करते हैं :--

क्रमांक	नाम	पदनाम
1.	डॉ मानस सरदार	वैज्ञानिक अधिकारी "ई"
2.	श्री मुसुकुमार एम	वैज्ञानिक अधिकारी "डी"
3.	श्री श्रीनिवास डी	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"

के. अब्राहम
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सं. इगांपअके/ए/11013/1/2003-आर/417--राष्ट्रपति, निम्नलिखित वर्ग "ए" वैज्ञानिक अधिकारियों को इस केन्द्र में 1 अक्टूबर, 2001 से स्थायी क्षमता में नियुक्त करते हैं :--

क्रमांक	नाम	पदनाम
	(सर्वश्री/श्रीमती/कु./डॉ.)	
01.	सोर्नदुरै. डी.	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
02.	मारन टी.वी.	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
03.	चन्द्रशेखरन एस.	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
04.	चित्तरंजन दास	वैज्ञानिक अधिकारी "डी"
05.	गौरी सी.	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
06.	फ्रांसिस विलफ्रेड एस.	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
07.	अनिल कुमार पी.वी.	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
08.	सुरेश कुमार बी.	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
09.	शिवकुमार एस.	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
10.	पेराची सेल्वम पी.	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
11.	तिरुनावक्करसू एस.	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
12.	सौंदरराजन ई.	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
13.	राणी पी. जार्ज	वैज्ञानिक अधिकारी "डी"
14.	सुरेश कुमार आर.	वैज्ञानिक अधिकारी "डी"
15.	श्रीरामचन्द्रा आइतल	वैज्ञानिक अधिकारी "डी"
16.	विनोद बी.	वैज्ञानिक अधिकारी "डी"
17.	पवन कुमार के.	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
18.	सुमन कुमार साहू	वैज्ञानिक अधिकारी "डी"
19.	श्रीरामचन्द्र के.	वैज्ञानिक अधिकारी "डी"
20.	दिबीदत्ता प्रूस्ती	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
21.	मुजुलता साहू	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
22.	संजय सी. पटेल	वैज्ञानिक अधिकारी "डी"

के. अब्राहम
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सं. इगांपअके/ए/11013/1/2003-आर/418--राष्ट्रपति, निम्नलिखित वर्ग "ए" वैज्ञानिक अधिकारियों को इस केन्द्र में 1 अक्टूबर, 2002 से स्थायी क्षमता में नियुक्त करते हैं :--

क्रमांक	नाम	पदनाम
1	2	3
	(सर्वश्री/श्रीमती/कु./डॉ.)	
01.	सुईली माजी गयेन	वैज्ञानिक अधिकारी "डी"
02.	मती जया	वैज्ञानिक अधिकारी "ई"

1	2	3
	(सर्वश्री/श्रीमती/कु./डॉ.)	
03.	मोहनराज के.वी.	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
04.	विजय आनंद आर.	वैज्ञानिक अधिकारी "डी"
05.	अन्बुचेलियन एम.	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
06.	कार्तिकुमार एम.एस.	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
07.	मुरुगन आर.	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
08.	पारीवल्लल एस.	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
09.	सतीश कुमार एल.	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
10.	अब्दुल गनी एच. आई.	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
11.	हरिकुमार सी.	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
12.	कविता के.	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
13.	पद्मनाभन जी.	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
14.	परिमलम पी.	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
15.	केशव कुमार सी.के.	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
16.	करुणाकर पाण्डियन ए.	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
17.	मुत्तुकृष्णन एम.	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
18.	रंगनाथन के.	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
19.	अनिता टेपो	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
20.	सुरेश कुमार एस.	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
21.	किनकर मण्डल	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
22.	राजेन्द्र प्रसाद बेहरा	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
23.	कुमार के.	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
24.	किशोर एस.	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
25.	सरवनन टी.	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
26.	पोतीराज एस.	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
27.	अमुदु रमेश कुमार आर.	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
28.	विजय कुमार के.	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
29.	मालती एन.	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
30.	जोहन सिंह पी.	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
31.	संजित एम.ए.	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
32.	सतीश एन.	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
33.	अन्नी बेसंत पी.एम.	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
34.	मणिमारन एम.	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
35.	अरुप दास गुप्ता	वैज्ञानिक अधिकारी "डी"
36.	कासीनाथन एम.	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
37.	बिन्दु आर.	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
38.	अनुसुया आर.	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
39.	नरेन्द्र कुमार खुशवाहा	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"

1	2	3
	(सर्वश्री/श्रीमती/कु./डॉ.)	
40.	रामकृष्णा	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
41.	साजी जेकब जार्ज	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
42.	रियास ए.	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
43.	सर्जाश एस.डी.	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
44.	अनुप बी.	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
45.	कुमार क्रोवीडी एस.सी.एस.पी.	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
46.	सुनील गोयल	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
47.	हीरा बालचन्द्रन	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
48.	दीपक कुमार बेशनब	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
49.	सीता एच.	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"

के. अब्राहम
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय

हैदराबाद-500016, दिनांक 23 सितम्बर 2003

सं. पखनि-16/195-भर्ती/1725--निदेशक, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग एतद्वारा श्री जोगी राम, वरिष्ठ लिपिक (वेतनमान रु. 5,000-8,000/-) को दिनांक 06.09.2002 से 05.09.2003 तक की अवधि हेतु इसी निदेशालय में तदर्थ आधार पर सहायक कार्मिक अधिकारी (वेतनमान रु. 6,500-10,500/-) के रूप में नियुक्त करते हैं।

के. दामोदरन
मुख्य प्रशासनिक एवं लेखा अधिकारी

महानिदेशक, नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली-3, दिनांक 9 सितम्बर 2003

सं. ए-32013/3/2002-स्था.2--संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति, श्री वी. के. चान्दना, उप महानिदेशक को उनकी पदोन्नति पर, महानिदेशक नागर विमानन के कार्यालय में 18,400-500-22,400/- रुपये के वेतनमान में, दिनांक सितम्बर 08, 2003 (अपराह्न) से तथा अगले आदेशों तक संयुक्त महानिदेशक नागर विमानन के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

आर. एस. कटारिया
उपनिदेशक, प्रशासन

जल संसाधन मंत्रालय
(केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड)

एन.एच.-4, फरीदाबाद-121001, दिनांक 15 सितम्बर 2003

सं. 3-1190/99-वै. (स्था.)/851--निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नामों के सामने लिखित तिथियों से सहायक जलभूविज्ञानी के पद पर

वेतनमान 7,500-250-12,000/- रु. में अस्थाई रूप से नियुक्त किया जाता है :-

क्रम सं.	नाम	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री वी. विनय विद्याधर	27.03.2003
2.	श्री सैदूल हक	27.03.2003
3.	श्री सन्दीप धनेश्वर बाघमारे	02.07.2003

वे नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष तक परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे, अगर आवश्यकता हुई तो सक्षम अधिकारी के अधिकार क्षेत्र से इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है।

एम. मेहता
क्षेत्रीय निदेशक एवं निदेशक (प्रशासन)

दिनांक 26 सितम्बर 2003

सं. 3-1449/2003-वै. (स्था.)/969--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर (समूह ख) श्री डब्ल्यू. बी. कालम्बे, प्रधान सर्वेक्षक को वेतनमान रु. 6,500-250-10,500/- में अधिकारी सर्वेक्षक (समूह 'ख' राजपत्रित) के पद पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से पदोन्नत किया जाता है :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम व पद	तैनाती का स्थान	कार्यभार ग्रहण तिथि
1.	श्री डब्ल्यू. बी. कालम्बे	केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, रायपुर	22.8.2003

कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वह दो वर्ष की परिवीक्षावधि पर रहेंगे। सक्षम अधिकारी द्वारा यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

एम. मेहता
क्षेत्रीय निदेशक एवं निदेशक (प्रशासन)

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय
(कम्पनी कार्य विभाग)
कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एच. एस. गुलाटी एन्टरप्राइजेज़ प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 10 सितम्बर 2003

सं. 560 (3)/एसईएस/55/91566/4363--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एच. एस. गुलाटी एन्टरप्राइजेज़ प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नरोली फाईनेशियल सर्विसेज़ लिमिटेड के विषय में ।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 10 सितम्बर 2003

सं. 560 (3)/एसईएस/133/55/63839/4366--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नरोली फाईनेशियल सर्विसेज़ लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हरियाणा बस स्टैण्ड्स कार्पोरेशन लिमिटेड के विषय में ।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 11 सितम्बर 2003

सं. 560 (3)/एसईएस/05/32667/4369--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स हरियाणा बस स्टैण्ड्स कार्पोरेशन लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स दीपक सरीन हॉस्पिटल कन्सलटेन्सी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 23 सितम्बर 2003

सं. 560 (3)/एसईएस/147/55/102263/589--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स दीपक सरीन हॉस्पिटल कन्सलटेन्सी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आरकेडी इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट एण्ड लिजिंग लिमिटेड के विषय में ।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 25 सितम्बर 2003

सं. 560 (3)/एसईएस/8/55/51880/705--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स आरकेडी इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट एण्ड लिजिंग लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गुरसेवक फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

जालन्धर शहर, दिनांक 26 सितम्बर 2003

सं. 4756/560(5)/909--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स गुरसेवक फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द
कम्पनी रजिस्ट्रार
पंजाब, हि. प्र. एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गोयल स्पिनर्स लिमिटेड के विषय में ।

जालन्धर शहर, दिनांक 26 सितम्बर 2003

सं. 9228/560(5)/910--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स गोयल स्पिनर्स लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द
कम्पनी रजिस्ट्रार
पंजाब, हि. प्र. एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वेबस्टर कम्प्यूनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

जालन्धर शहर, दिनांक 26 सितम्बर 2003

सं. 560(5)/21847/911--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि

मैसर्स वेबस्टर कम्यूनिक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द
कम्पनी रजिस्ट्रार
पंजाब, हि. प्र. एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ताज इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 26 सितम्बर 2003

सं. 560(5)/24071/912--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स ताज इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द
कम्पनी रजिस्ट्रार
पंजाब, हि. प्र. एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सागर इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 26 सितम्बर 2003

सं. 560(5)/21619/913--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स सागर इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द
कम्पनी रजिस्ट्रार
पंजाब, हि. प्र. एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बत्तरा इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 26 सितम्बर 2003

सं. 560(5)/23891/914--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स बत्तरा इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द
कम्पनी रजिस्ट्रार
पंजाब, हि. प्र. एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ब्रोडवेज इन्फार्मेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 26 सितम्बर 2003

सं. 560(5)/25109/915--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स ब्रोडवेज इन्फार्मेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द
कम्पनी रजिस्ट्रार
पंजाब, हि. प्र. एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स के एस डी इन्वैस्टमेंट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 26 सितम्बर 2003

सं. 560(5)/6739/916--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स के एस डी इन्वैस्टमेंट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द
कम्पनी रजिस्ट्रार
पंजाब, हि. प्र. एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्लैनेट इन्फार्मेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 26 सितम्बर 2003

सं. 25299/560(5)/917--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स प्लैनेट इन्फार्मेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द
कम्पनी रजिस्ट्रार
पंजाब, हि. प्र. एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नील पैट्रोकेमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 26 सितम्बर 2003

सं. 22674/560(5)/918--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि

मैसर्स नील पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द
कम्पनी रजिस्ट्रार
पंजाब, हि. प्र. एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स लियो टूल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 26 सितम्बर 2003

सं. 23352/560(5)/919--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स लियो टूल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द
कम्पनी रजिस्ट्रार
पंजाब, हि. प्र. एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स टैगोर कार्डियक इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 26 सितम्बर 2003

सं. 20297/560(5)/920--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स

टैगोर कार्डियक इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द
कम्पनी रजिस्ट्रार
पंजाब, हि. प्र. एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एच एण्ड एच एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 26 सितम्बर 2003

सं. 24322/560(5)/921--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स एच एण्ड एच एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द
कम्पनी रजिस्ट्रार
पंजाब, हि. प्र. एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मैडीकोज इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 26 सितम्बर 2003

सं. 23997/560(5)/922--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स मैडीकोज इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द
कम्पनी रजिस्ट्रार
पंजाब, हि. प्र. एवं चण्डीगढ़

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110069, the 2nd September 2003

No. P-2819/Admn.III--Consequent upon her repatriation from deputation post of Assistant Manager (O&M) in Delhi Transco Limited, Smt. M. Sachdeva, Section Officer has resumed her duties in the office of Union Public Service Commission w.e.f. the forenoon of 1st September, 2003.

S. ANANDAN
Under Secy. (Admn.)

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110 003, the 18th September 2003

No. DPAD5/2003/03806/3/36/2003-AD.V--The President is pleased to appoint Sh. Rajiv Singh, IPS (MT:1993) as Supdt. of Police in Central Bureau of

2-276 GI/2003

Investigation with effect from the forenoon of August 29, 2003 for a period of 4 years up to 28.8.2007 or until further orders, whichever is earlier.

In view of the interim order dated 30.7.2002 of the Hon'ble High Court of Delhi in CWP No. 3755/2001--Shri S.K. Khare Vs. Union of India, the appointment of Shri Rajiv Singh, IPS as SP/CBI will be subject to further orders of the CAT, Principal Bench, Delhi in OA No. 773/2001--filed by Shri Navin Goyal & others Vs. Union of India.

S.D. BAIJAL
Administrative Officer (Estt.)

The 19th September 2003

No. DPAD5/2003/3768/3/15/96-AD.V--The President is pleased to appoint Sh. Amrik Singh Cheema, Public

Prosecutor, CBI as Sr. Public Prosecutor in the CBI with effect from the forenoon of 21.8.2003 and until further orders.

S. D. BAIJAL
Administrative Officer (Estt.)

Central Reserve Police Force in temporary capacity from the forenoon of 08/09/2003 till further order. He is posted to 72 BN, CRPF.

J. N. SHARMA
Addl. DIGP (Pers.I)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(BUREAU OF POLICE RESEARCH & DEVELOPMENT)

New Delhi-110 003, the 25th September 2003

No. 18/25/98-Adm.II (Pt.)—The period of deputation of Shri V.B. Sharma, Inspector (Exe) of Central Industrial Security Force, New Delhi on the post of Deputy Superintendent of Police in the CDTS, Kolkata is extended for a further period of one year (i.e. 4th year) with effect from 15.9.2003 to 14.9.2004 or till the time a new incumbent joins duty, whichever is earlier on the existing terms and conditions. This issues with the approval of the Ministry of Home Affairs vide their Dy. No. 1194/PM-II/03 dated 4.8.2003.

A. K. SOOD
Asstt. Dir. (Adm.)

No. 3/7/2003-Admn.—The President of India is pleased to appoint Shri Sarabjit Singh, IPS (PB:65) as Director General, Bureau of Police Research and Development, New Delhi on deputation basis with effect from the forenoon of September 24, 2003 in the scale of pay of Rs. 26000/- (fixed), until further orders.

A. K. SOOD
Asstt. Dir. (Admn.)

The 26th September 2003

No. 18/25/98-Adm.II (Pt.)—The period of deputation of Shri M.K. Nair, ACIO-I(G) of Intelligence Bureau, New Delhi on the post of Deputy Superintendent of Police in the CDTS, Kolkata is extended for a further period of one year (i.e. 4th year) with effect from 16.6.2003 to 15.6.2004 or till the time a new incumbent joins duty, whichever is earlier on the existing terms and conditions. This issues with the approval of the Ministry of Home Affairs vide their Dy. No. 1267/PM-II/03 dated 18.8.2003.

A. K. SOOD
Asstt. Dir. (Admn.)

DIRECTORATE GENERAL, CENTRAL RESERVE
POLICE FORCE

New Delhi-110 003, the 25th September 2003

No. O. II-3635/03-CRC (MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Rajesh Kumar Singh as Medical Officer in

DIRECTORATE GENERAL, CENTRAL INDUSTRIAL
SECURITY FORCE

New Delhi-110003, the 26th September 2003

No. E-32015(4)/2/2001/Pers.I/31—The President is pleased to appoint the following directly recruited Officers (Group "A") in the rank of Assistant Commandant/Exe in the pay scale of Rs. 8000-13500/- in CISF on the basis of result of Civil Service Examinations-2000 with effect from the dates as shown against their names :—

Sl. No.	Name of the officer	Date of joining for Foundation Course at LBSNAA Mussoorie	Date of joining in NISA CISF Hyderabad	Place of posting
01.	Ms. Tapasya Obhrai	02.09.2002 (F/N)	22.12.2002 (F/N)	BCCL Dhanbad
02.	Ms. Shipra Srivastava	02.09.2002 (F/N)	23.12.2002 (F/N)	IISCO Burnpur

Sd/- ILLEGIBLE
Dir. Gen./CISF

MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS
CURRENCY NOTE PRESS

Nashik Road, the 23rd September 2003

No. 05/S-ESC-1-10—The following inspectors Control of Currency Note Press are promoted to the post of Dy. Control Officer (Group 'B', Gazetted), Currency Note Press purely on adhoc basis in the pay scale of Rs. 6500-200-10,500/- from the dates shown against their names for a period of six months or till the post are filled on regular basis, whichever is earlier :—

Sl.No	Name	From	To
1.	Shri S.N. Gangurde (S.C.)	11.09.2003	10.03.2004
2.	Shri S.R. Mungad	15.09.2003	14.03.2004

2. The above adhoc promotion will not bestow on the promotee any claim for regular appointment and the adhoc service rendered by him would not count for the purpose of seniority in that grade for regular promotion.

A. N. INGLE
Gen. Manager

**INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT
(ECONOMIC & SERVICE MINISTRIES)**

New Delhi-110 002, the 24th September 2003

No. AMG-I/Admn.1/2(1)/Vol.XIII/95-2003 Pt-II—The Principal Director of Audit, Economic and Service Ministries, New Delhi has ordered promotion of the following Asstt. Audit Officers as Audit Officer (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 7500-250-12000/- from the date shown against them :—

S.No.	Name	Date of promotion
1.	Vipin Wason	19.02.2003
2.	Bhushan Kumar Juneja	20.02.2003
3.	Harish Khurana	20.02.2003
4.	M.D. Adinarayan	16.06.2003
5.	M. Paranthaman	27.06.2003
6.	Smt. Sneh Lata Vij	04.08.2003

T.K. DOGRA
Dy. Dir. (Admn.)

**MINISTRY OF LABOUR
(LABOUR BUREAU)**

Shimla-171004, the 30th September 2003

No. 5/1/2003-C.P.I.—The All-India Consumer Price Index Number for Industrial workers on base : 1982 = 100 has decreased by 2 points to stand at 499 (four hundred & ninety nine) for the month of August, 2003.

I. S. NEGI
Dy. Director

ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

New Delhi, the 15th September 2003

No. 10-7/99-M.—In exercise of the power conferred under Rule 5 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959, I, K.P. Poonacha, Director (Monuments) hereby direct that no entry fee shall be charged at Taj Mahal from the visitor on the occasion of Annual "URS" of Shahjahan during 23.09.2003. to 25.09.2003.

K.P. POONACHA
Dir. (Monuments)
for Dir. Gen.

**DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
(VARIABLE ENERGY CYCLOTRON CENTRE)**

Kolkata-700064, the 23rd September 2003

No. VECC/Prom.(Aug.)/2003/4030—The President of India is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers of Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Kolkata as "Scientific Officer-F" (Grade: Rs. 14300-400-18300) in the same Centre with effect from the forenoon of August 01, 2003 in an officiating capacity, until further orders :—

Sl. No.	Name	Post held at Present	Grade
	S/Shri		
1.	G.C. Chaki	SO/E	Rs. 12000-375-16500
2.	Ashutosh Maiti	SO/E	Rs. 12000-375-16500
3.	R.C. Senapati	SO/E	Rs. 12000-375-16500
4.	Arup Bandyopadhyay	SO/E	Rs. 12000-375-16500
5.	Saikat Paul	SO/E	Rs. 12000-375-16500
6.	Tapas Samanta	SO/E	Rs. 12000-375-16500

N. SRINIVASA RAO
Chief Admn. Officer

BOARD OF RADIATION AND ISOTOPE TECHNOLOGY

Navi Mumbai-400 705, 26th September 2003

No. BRIT/9/17/FEB/2003/S-491—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Engineers Grade 'D' of the Board of Radiation & Isotope Technology of the Department of Atomic Energy as Scientific Officers/Engineers Grade 'E' in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500 in the same unit in an officiating capacity with effect from the forenoon of February 01, 2003 until further orders :—

Sl.No.	Name
1.	Shri P.A. Ramasubramanian
2.	Dr. (Smt.) S.H. Joshi

O. BHARATHAN
Administrative Officer-III

No. BRIT/9/17/FEB/2003/S-492—The President is pleased to appoint the Undermentioned Scientific Officers/Engineers Grade 'C' of the Board of Radiation & Isotope Technology of the Department of Atomic Energy as Scientific Officers/Engineers Grade 'D' in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in the same unit in an officiating capacity with effect from the forenoon of February 01, 2003 until further orders :—

Sl. No.	Name
1.	Smt. Chanda Arjun
2.	Shri M.N. Kumbhare
3.	Dr. (Smt.) R. Chandrika
4.	Smt. T.K. Karir
5.	Shri A.N. Thamke
6.	Shri Jacob Sebastian

O. BHARATHAN
Administrative Officer-III

No. BRIT/9/17/FEB/2003/S-493—Chief Executive, BRIT is pleased to appoint Shri A.S. Gengje, Scientific Assistant Grade 'C' of the Board of Radiation & Isotope Technology of the Department of Atomic Energy as Scientific Officer/Engineer Grade 'SB' in the scale of pay of Rs. 7450-225-11500/- in the same unit in an officiating capacity with effect from the forenoon of February 01, 2003 until further orders.

O. BHARATHAN
Administrative Officer-III

No. BRIT/T/115/S-502—Chief Executive, Board of Radiation & Isotope Technology appoints Smt. K.P. Sathidevi, Assistant Accounts Officer in the scale of pay of Rs. 7,450-225-11,500/- to officiate as Accounts Officer in BRIT in the Scale of pay of Rs. 7,500-225-12,000/- from 22/06/2003 (FN) to 15/08/03 (AN).

O. BHARATHAN
Administrative Officer-III

DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES

Mumbai-400 094, the 17th September 2003

No. DPS/10015/Rectt./4372—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy has appointed Shri M.R. Sarkar, Storekeeper, CSU, DPS, Mumbai, as Assistant Stores Officer in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- on an adhoc basis in the same Directorate with effect from 19.05.2003 (FN) to 20.06.2003 (AN).

R. SUNDARARAJAN
Administrative Officer-III

NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad-500 062, the 18th September 2003

No. NFC/ADM/PEN/EC-0057/1330—On attaining the age of superannuation, Shri B. Gopalan, Scientific Officer 'H' (Scale of pay of Rs. 18400-500-22400/-) of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad, has relinquished the charge of the post with effect from 31.08.2003 (AN).

G. KOTESWARA RAO
Administrative Officer

INDIRA GANDHI CENTRE FOR ATOMIC RESEARCH

Kalpakkam-603. 102, the 17th September 2003

No. IGCAR/A-11013/1/2003-R/416—The President is pleased to appoint the undermentioned Group 'A' Scientific Officers of this Centre, in a substantive capacity with effect from October 1, 2000.

Sl. No.	Name	Designation
1.	Dr. Manas Sardar	Scientific Officer 'E'
2.	Shri Muthukumar M.	Scientific Officer 'D'
3.	Shri Srinivas D.	Scientific Officer 'C'

K. ABRAHAM
Chief Administrative Officer

No. IGCAR/A-11013/1/2003-R/417—The President is pleased to appoint the undermentioned Group 'A' Scientific Officers/Engineers of this Centre, in a substantive capacity with effect from October 1, 2001.

Sl. No.	Name	Designation
	S/Shri/Smt	
01.	Sornadurai D.	Scientific Officer 'C'
02.	Maran T.V.	Scientific Officer 'C'
03.	Chandrasekaran S.	Scientific Officer 'C'
04.	Chittaranjan Das	Scientific Officer 'D'
05.	Gowri C.	Scientific Officer 'C'
06.	Francis Wilfred S.	Scientific Officer 'C'
07.	Anil Kumar P.V.	Scientific Officer 'C'
08.	Suresh Kumar V.	Scientific Officer 'C'
09.	Sivakumar S.	Scientific Officer 'C'
10.	Perachi Selvam P.	Scientific Officer 'C'
11.	Thirunavukkarasu S.	Scientific Officer 'C'
12.	Soundararajan E.	Scientific Officer 'C'
13.	Ranj P. George	Scientific Officer 'D'
14.	Surresh Kumar R.	Scientific Officer 'D'
15.	Sriramachandra Aithal	Scientific Officer 'D'

1	2	3
16.	Vinod V.	Scientific Officer 'D'
17.	Pavan Kumar K.	Scientific Officer 'C'
18.	Suman Kumar Saha	Scientific Officer 'D'
19.	Sriramachandr K.	Scientific Officer 'D'
20.	Debidutta Prusty	Scientific Officer 'C'
21.	Manjulatha Sahu	Scientific Officer 'C'
22.	Sanjay C. Patel	Scientific Officer 'D'

K. ABRAHAM
Chief Administrative Officer

No. IGCAR/A-11013/1/2003-R/418—The President is pleased to appoint the undermentioned Group 'A' Scientific Officers of this Centre, in a substantive capacity with effect from October 1, 2002.

Sl. No.	Name	Designation
	S/Shri/Smt./Dr./Kum.	
01.	Siuli Maji Gayen	Scientific Officer 'D'
02.	Mathi Jaya	Scientific Officer 'E'
03.	Mohanraj K.V.	Scientific Officer 'C'
04.	Vijay Anand R.	Scientific Officer 'C'
05.	Anbuchelian M.	Scientific Officer 'C'
06.	Karthikumar M.S.	Scientific Officer 'C'
07.	Murugan R.	Scientific Officer 'C'
08.	Parivallal S.	Scientific Officer 'C'
09.	Satish Kumar L.	Scientific Officer 'C'
10.	Abdul Gani H.I.	Scientific Officer 'C'
11.	Harikumar C.	Scientific Officer 'C'
12.	Kavitha K.	Scientific Officer 'C'
13.	Padmanabhan G.	Scientific Officer 'C'
14.	Parimalam P.	Scientific Officer 'C'
15.	Keshava Kumar C.K.	Scientific Officer 'C'
16.	Karunakara Pandian A.	Scientific Officer 'C'
17.	Muthukrishnan M.	Scientific Officer 'C'
18.	Renganathan K.	Scientific Officer 'C'
19.	Anita Toppo	Scientific Officer 'C'
20.	Suresh Kumar S.	Scientific Officer 'C'
21.	Kinkar Mandal	Scientific Officer 'C'
22.	Rajendra Prasad Behra	Scientific Officer 'C'
23.	Kumar K.	Scientific Officer 'C'
24.	Kishor S.	Scientific Officer 'C'

1	2	3
25.	Saravanan T.	Scientific Officer 'C'
26.	Pothiraj S.	Scientific Officer 'C'
27.	Amudhu Ramesh Kumar R.	Scientific Officer 'C'
28.	Vijayakumar K.	Scientific Officer 'C'
29.	Malathi N.	Scientific Officer 'C'
30.	Johan Singh P.	Scientific Officer 'C'
31.	Sanjith M.A.	Scientific Officer 'C'
32.	Satheesh N.	Scientific Officer 'C'
33.	Annie Besant P.M.	Scientific Officer 'C'
34.	Manimaran M.	Scientific Officer 'C'
35.	Arup Das Gupta	Scientific Officer 'D'
36.	Kasinathan M.	Scientific Officer 'C'
37.	Bindu R.	Scientific Officer 'C'
38.	Anusooya R.	Scientific Officer 'C'
39.	Narendra Kumar Kushwaha	Scientific Officer 'C'
40.	Ramakrishna	Scientific Officer 'C'
41.	Saji Jacob George	Scientific Officer 'C'
42.	Riyas A.	Scientific Officer 'C'
43.	Sajish S.D.	Scientific Officer 'C'
44.	Anoop B.	Scientific Officer 'C'
45.	Kumar Krovvidi S.C.S.P.	Scientific Officer 'C'
46.	Sunil Goyal	Scientific Officer 'C'
47.	Heera Balachandran	Scientific Officer 'C'
48.	Deepak Kumar Baisnab	Scientific Officer 'C'
49.	Seetha H.	Scientific Officer 'C'

K. ABRAHAM
Chief Administrative Officer

ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR EXPLORATION & RESEARCH

Hyderabad-500016, 23rd September 2003

No. AMD-16/1/95-Rectt./1725—Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, Department of Atomic Energy hereby appoints Shri Jogi Ram, Sr. Clerk (Scale of pay Rs. 5000-150-8000), AMD as Assistant Personnel Officer (Scale of pay Rs. 6500-200-10500) in the same Directorate on adhoc basis for the period from 06.09.2002—05.09.2003.

K. DAMODARAN
Chief Admnv. & Accounts Officer

**OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL
AVIATION**

New Delhi-110003, the 09th September 2003

No. A-32013/3/2002-F.II.—On the basis of the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri V. K. Chandna, Deputy Director General, on his promotion to the post of Joint Director General of Civil Aviation, in the scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400, in the Office of the Director General of Civil Aviation, Headquarters, New Delhi with effect from the afternoon of 08th September, 2003 on regular basis and until further orders.

R. S. KATARIA
Dy. Dir. of Admn.

He will be on probation for a period of two years from the date of his joining which can be extended by the competent authority at his discretion, if considered necessary.

M. MEHTA
Regional Director &
Director (Admn.)

**MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES**

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. H. S. Gulati Enterprises Private Limited

New Delhi-110003, the 10th September 2003

No. 560(3)/55-91566/4363.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. H. S. Gulati Enterprises Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Naroli Financial Services Limited

New Delhi-110003, the 10th September 2003

No. 560(3)SES/133/55-63839/4366.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Naroli Financial Services Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Haryana Bus Stands Corporation Limited

New Delhi-110003, the 11th September 2003

No. 560(3)/05-32667/4369.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Haryana Bus Stands Corporation Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

**MINISTRY OF WATER RESOURCES
CENTRAL GROUND WATER BOARD**

NH-IV, Faridabad-121001, the 15th September 2003

No. 3-1190/99-Sci. Estt.—On the recommendation of the DPC (Group-B, Gazetted), the following Senior Technical Assistants (Hydrogeology) have been promoted to the post of Assistant Hydrogeologist on regular basis, in the pay of Rs. 7500-250-12000/- per month plus allowances applicable thereon in the temporary capacity from the date shown against each :—

Sl. No.	Name of Officer	Date of Joining
1.	Sh. V. Vinay Vidhyadhar	27-03-2003
2.	Sh. Saidul Haq.	27-03-2003
3.	Sh. Sandeep Dhyneshwar Rao Waghmare	02-07-2003

They will be on probation for a period of two years from the date of their joining which can be extended by the competent authority at his discretion, if considered necessary.

M. MEHTA
Regional Director &
Director (Admn.)

The 26th September 2003

No. 3-1449/2003-Sci. (Estt.)—On the recommendations of the DPC (Group-B, Gazetted), Sh. W. V. Kalambe, Head Surveyor is promoted to the post of Officer Surveyor (Group-B, Gazetted) in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 per month plus usual allowance applicable thereon in the temporary capacity from the date shown against his name :—

Sl. No.	Name & Designation	Place of posting	Date of joining on promotion
1.	Sh. W. V. Kalambe, Officer Surveyor	CGWB, NCCR, Raipur	22-08-2003 (FN)

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Deepak Sarin Hospitality Consultancy
Private Limited

New Delhi-110003, the 23rd September 2003

No. 560(3)SES/147/55-102263/586.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Deepak Sarin Hospitality Consultancy Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. RKD Infrastructure Development & Leasing
Limited

New Delhi-110003, the 25th September 2003

No. 560(3)SES/8/55-51580/705.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. RKD Infrastructure Development & Leasing Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gursewak Finance Private Limited

Jalandhar City, the 26th September 2003

No. ROC/560(5)/4756.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Gursewak Finance Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Goyal Spinners Limited

Jalandhar City, the 26th September 2003

No. ROC/560(5)/9228.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Goyal Spinners Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Webstar Communications Private Limited

Jalandhar City, the 26th September 2003

No. ROC/560(5)/21847.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Webstar Communications Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Taj Impex Private Limited

Jalandhar City, the 26th September 2003

No. ROC/560(5)/24071.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Taj Impex Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sagar Infotech Private Limited

Jalandhar City, the 26th September 2003

No. ROC/560(5)/21619.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sagar Infotech Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Batra Infotech Private Limited

Jalandhar City, the 26th September 2003

No. ROC/560(5)/23891.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Batra Infotech Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Broadways Informatics Private Limited

Jalandhar City, the 26th September 2003

No. ROC/560(5)/25109.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Broadways informatics Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. K.S.D. Investments Limited

Jalandhar City, the 26th September 2003

No. ROC/560(5)/6739.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. K.S.D. Investments Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Planet Informatics Private Limited

Jalandhar City, the 26th September 2003

No. ROC/560(5)/25299.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Planet Informatics Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Neil Petro-Chemicals Private Limited

Jalandhar City, the 26th September 2003

No. ROC/560(5)/22674.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Neil Petro-Chemicals Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Leo Tools Private Limited

Jalandhar City, the 26th September 2003

No. ROC/560(5)/23352.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Leo Tools Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Tagore Cardiac Institute Private Limited

Jalandhar City, the 26th September 2003

No. ROC/560(5)/20297.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Tagore Cardiac Institute Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. H & H Entertainment Private Limited

Jalandhar City, the 26th September 2003

No. ROC/560(5)/24322.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. H & H Entertainment Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Medicos Institute of Information Technology
Private Limited

Jalandhar City, the 26th September 2003

No. ROC/560(5)/23997.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Medicos Institute of Information Technology Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H.P. & Chandigarh